

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016-आश्विन 1, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मेघना बाकरे पति मोरेश्वर बाकरे, निवासी-1-बी, कॉलानी बाग, देवास मध्यप्रदेश का नाम विवाह से पूर्व रेखा पिता प्रभाकर पुरंदरे, निवासी आनंदपुरा, देवास मध्यप्रदेश था. मेरा विवाह 20-05-1977 को हुआ. विवाह के उपरान्त मैंने नाम परिवर्तित कर श्रीमती मेघना पति मोरेश्वर बाकरे कर लिया है. विवाह के बाद के सभी दस्तावेजों में भी मेरा यही नाम दर्ज है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

( रेखा पुरंदरे )

नया नाम :

( मेघना बाकरे )

पति श्री मोरेश्वर बाकरे,  
निवासी-1-बी, कालानी बाग,  
देवास (म.प्र.).

(363-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, Sanjay Kumar Koram S/o Bhuwan Lal Koram यह सूचित करता हूँ कि मेरी 10वीं, 12वीं एवं ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर मेरा नाम Sanjay Koram लिखा हुआ है जिसे मैंने बदलकर अपना नाम Sanjay Kumar Koram रख लिया है जो मेरे शासकीय सेवा रिकार्ड में एवं मेरी समस्त आई. डी. में लिखा हुआ है. अतः मेरे नाम को Sanjay Kumar Koram ही पढ़ा व समझा जावे.

Old Name :

( SANJAY KORAM )

New Name :

( SANJAY KUMAR KORAM )

पता—H.No. 375, Gali No. 7,  
Shankar Shah Colony, Rampur,  
Jabalpur (M.P.).

(364-B.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, मेरा पूर्व नाम हेमलता जाजू पिता रामेश्वर जाजू (उम्र 52 वर्ष) था जो परिवर्तित होकर हेमा जाजू हो गया है. अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( हेमलता जाजू )

(365-बी.)

नया नाम :

( हेमा जाजू )

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र दर्वेश चौधरी (DARVESH CHOUDHARY) के 10वीं के अंकसूची में मेरा भाग्याशा चौधरी (BHAGYASHA CHOUDHARY) अंकित है मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम भागश्री (BHAGSHRI) है. अतः भविष्य में मेरे सही नाम श्रीमती भागश्री चौधरी (BHAGSHRI CHOUDHARY) के नाम से पढ़ा व समझा जाये.

पुराना नाम :

( भाग्याशा चौधरी )

(366-बी.)

नया नाम :

( भागश्री चौधरी )

(BHAGSHRI CHOUDHARY)

म. नं. 37, पंचवटी कॉलोनी, फेस-3,  
करोंद, भोपाल (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. वसंती रघुवंशी पुत्री श्री काशीराम रघुवंशी, निवासी बृजकॉलोनी, सिरोंज की हूँ. मैं अपना नाम परिवर्तित कर रही हूँ. आज के पश्चात् मुझे आस्था रघुवंशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा एवं मेरे शैक्षणिक, व्यवसायिक कार्य इसी नाम से सम्पादित होंगे.

पुराना नाम :

( कु. वसंती रघुवंशी )

(367-बी.)

पुत्री काशीराम.

नया नाम :

( आस्था रघुवंशी )

पुत्री काशीराम.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री गार्गी गोखले (GARGI GOKHALE) पुत्री डॉ. समीर गोखले है, जो कि कॉर्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ग्वालियर की 10वीं की छात्रा है. उसका जन्म दिनांक 13-09-2001 है. उसके सी.बी.एस.ई. रजिस्ट्रेशन फार्म में उसका नाम गार्गी समीर गोखले (GARGI SAMEER GOKHALE) लिखा है जो कि गलत है. वास्तव में उसका नाम गार्गी गोखले है.

इस सूचना के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि भविष्य में उसे गार्गी गोखले (GARGI GOKHALE) के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

(368-बी.)

समीर गोखले,

गोखले हॉस्पिटल, कमल सिंह का बाग,  
शिन्दे की छावनी, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रवीण श्रीवास्तव पुत्र श्री अम्बिकाप्रसाद श्रीवास्तव, नि. बृज कॉलोनी सिरोंज, जिला विदिशा का हूँ. मैं आज के पश्चात् प्रवीण श्रीवास्तव के स्थान पर प्रवीण आर्य के नाम से जाना जाऊंगा. मेरे समस्त व्यवसायिक, आर्थिक कार्य इसी नाम से सम्पादित होंगे.

पुराना नाम :

( प्रवीण श्रीवास्तव )

(369-बी.)

पुत्र श्री अम्बिकाप्रसाद.

नया नाम :

( प्रवीण आर्य )

पुत्र श्री अम्बिकाप्रसाद.

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम योगेश कुमार टेलर पिता श्री ओम प्रकाश टेलर के स्थान पर योगेश कुमार मेहता पिता श्री ओम प्रकाश टेलर पहचाना जाए. मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है तथा यह दोनों नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं.

पुराना नाम :

( योगेश कुमार टेलर )

(370-बी.)

नया नाम :

( योगेश कुमार मेहता )

**CHANGE OF NAME**

I, Frankie Suri S/o Late Sri Naresh Suri R/o H. No. 1394 Suri Bhawan Ranjhi, Jabalpur (M.P.) here by declare that I had been known by the name of Subhash Suri from my birth. That I hereby renounce and abandon my former name Subhash Suri and in place of it I do Hereby adopt/assume from this date onwards the name Frankie Suri and I may hereafter be known and distinguished not by my former name but the assumed/adopt name Frankie Suri. That from this day onwards my assumed name will be used in all my school documents, certificates, records, Govt. records, Passport etc. in place of my former name.

Old Name :

( SUBHASH SURI )

(382-B.)

New Name :

( FRANKIE SURI )

**जाहिर सूचना**

M/s Himalaya Infrastructure जो कि फर्म एवं संस्थाएं, रीवा संभाग में क्रमांक 05/26/01/0186/15, दिनांक 12-02-2015 में रजिस्टर्ड है. फर्म के निम्न साझेदार द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति दिनांक 05-05-2016 को ली गई है.

सेवानिवृत्त साझेदार का नाम:—

मृत्युन्जय गौतम S/o श्री मधुसूदन प्रसाद गौतम

पता-10/334, अनन्तपुर, रीवा (म.प्र.) एवं दिनांक 05-05-2016 को फर्म में निम्न साझेदार शामिल हुए.

नए शामिल साझेदार का नाम:—

1. अस्मिता पयासी W/o श्री कुलदीप पयासी

पता-वार्ड नं. 01, वेस्ट विराटनगर, रघुराजनगर, सतना (म.प्र.).

2. मो. आरिफ अन्सारी S/o श्री हारून अन्सारी

पता- वार्ड नं. 26, खेरमाई रोड, सतना (म.प्र.) उक्त प्रकाशन सर्वजन सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है.

द्वारा —

वास्ते: हिमालया इन्फ्रास्ट्रक्चर,

अभिषेक तिवारी,

( साझेदार ).

(371-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आर्ट इन्फ्रा एण्ड कन्सल्टेन्ट स्थित 272, सेक्टर पी, सिसौदिया कॉलोनी, गुना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 02/40/01/00227/13, दिनांक 18-01-2013 है, जिसमें दिनांक 01-04-2015 से भागीदार श्री प्रदीप कुमार राय पुत्र श्री देवेन्द्र राय, निवासी एम. आई. जी. 419, न्यू सुभाष नगर, जिला भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2015 से श्रीमती कविता सोनी पत्नी श्री बृजेश सोनी, निवासी सिसौदिया कॉलोनी, गुना फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स आर्ट इन्फ्रा एण्ड कन्सल्टेन्ट,

बृजेश सोनी

( भागीदार )

272, सेक्टर पी, सिसौदिया कॉलोनी,

गुना (म.प्र.).

(372-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जे. एम. कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरस स्थित म. नं. 4, प्रताप छात्रावास, नियर ज्योति टॉकीज, गुना, पंजीयन क्रमांक 02/40/01/00175/14, दिनांक 13-02-2014 है जिसमें दिनांक 11-04-2015 को भागीदार-श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री बी. एल. भदौरिया, निवासी बी-76/3, विजय नगर, लाल घाटी, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स जे. एम. कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरस,

**मनोज सोनी**

(भागीदार)

4, प्रताप छात्रावास, नियर ज्योति, टॉकीज,  
गुना (म.प्र.).

(373-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माँ कैलादेवी एण्ड कं. के भागीदार श्री रामस्वरूप शिवहरे पिता स्व. श्री हरगोविन्द शिवहरे, निवासी-54, दुर्गापुरी, तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री हर्ष शिवहरे पिता श्री वेदप्रकाश शिवहरे, निवासी गोशपुरा नं. 2, हजीरा, सेन्ट्रल बैंक के सामने, ग्वालियर (म.प्र.) दोनों स्वेच्छा से दिनांक 20-08-2016 से पृथक् हो गए हैं तथा श्रीमति मधु राय पति श्री महेश राय, निवासी एन 15-16 रस बहार कॉलोनी, झांसी (उ.प्र.) उपरोक्त फर्म में स्वेच्छा से दिनांक 20-08-2016 से सम्मिलित हो गयी हैं। अगर किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में निम्न पते पर सूचित करें।

Maa Keladevi & Co.,

**महेश कुमार राय,**

(Partner).

(374-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मै. रामनिवास कुशवाह कॉन्ट्रेक्टर के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. ज. स. 34, दिनांक 20 अक्टूबर, 1987 है. इस फर्म से दिनांक 01-04-2016 को दो भागीदार (1) श्री रामप्रभाव कुशवाह पिता श्री रामपत कुशवाह, निवासी पेचवैली स्कूल के पास परासिया, तह. परासिया एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्री उमेश वर्मा पिता श्री रामरक्षा वर्मा, निवासी पेचवैली स्कूल के पास परासिया, तह. परासिया एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) बाहर हो रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में एक भागीदार दिनांक 01-04-2016 से (1) श्री दीपक कुशवाह पिता श्री रामनिवास कुशवाह, निवासी पेचवैली स्कूल के पास परासिया, तह. परासिया एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2016 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस पेचवैली स्कूल के पास परासिया, तह. परासिया एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

मैसर्स रामनिवास कुशवाह कॉन्ट्रेक्टर,

**रामनिवास कुशवाह,**

(भागीदार).

(375-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में प्रीतम रोलर फ्लोर मिल के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00174/13, दिनांक 12-11-2013 है. इस फर्म में दिनांक 01-04-2016 से तीन भागीदार (1) श्री हरीशचन्द्र जुनेजा पिता श्री रामप्रकाश जुनेजा, निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्रीमती कमलरानी जुनेजा पति श्री हरीशचन्द्र जुनेजा, निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (3) श्रीमती अंशुलरानी जुनेजा पति श्री अजय कुमार जुनेजा, निवासी न्यू एक्टेक्शन एरिया, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दो भागीदार दिनांक 10-04-2016 से (1) श्रीमती अंजलीरानी जुनेजा पति श्री रविन्द्र कुमार जुनेजा, न्यू एक्टेक्शन एरिया, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), (2) श्री शुभांशु जुनेजा पिता श्री रविन्द्र कुमार जुनेजा, न्यू एक्टेक्शन एरिया, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), शामिल हो रहे हैं एवं संशोधन उपरान्त भागीदारी फर्म में भागीदार क्र. 1 का भागीदारी प्रतिशत 34% एवं भागीदारी क्र. 2 का भागीदारी 33% एवं भागीदारी क्र. 3 का भागीदारी 33% होगा. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2016 में संशोधन उपरांत तीन साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस चौपाल, सागर के सामने सिवनी रोड, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी.

प्रीतम रोलर फ्लोर मिल,

**रविन्द्र कुमार जुनेजा,**

(भागीदार).

(376-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को आज दिनांक 10-09-2016 को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स निपानी इण्डस्ट्रीज दिनांक 03-03-2011 को फर्म एवं संस्थाओं का पंजीयन कार्यालय क्रमांक 04/14/01/00340/10, देकर पंजीयन की गई थी एवं उक्त फर्म में तीन भागीदार थे-1. श्रीमती तमन्नापुरी पति श्री राजीवपुरी, 2. श्री के. डी. पुरी, पिता स्व. श्री आर. एन. पुरी, 3. श्री राजीवपुरी पिता श्री के. डी. पुरी एवं उक्त फर्म का कार्यालय ए-12 पंचशील नगर रोड, जबलपुर (मध्यप्रदेश) में स्थित था. यहकि दिनांक 13-03-2014 को उपरोक्त भागीदारों में से श्री के. डी. पुरी, पिता स्व. श्री आर. एन. पुरी का स्वर्गवास हो जाने से दिनांक 27-03-2014 को उपरोक्त फर्म में श्रीमती राजपुरी पति स्व. श्री के. डी. पुरी को उनके स्थान पर नया भागीदार स्वीकृत किया गया. यहकि उक्त फर्म में अब तीन भागीदार हैं. क्रमशः 1. श्रीमती तमन्नापुरी पति श्री राजवी पुरी, 2. श्रीमती राजपुरी पति श्री स्व. के. डी. पुरी, 3. श्री राजीव पुरी पिता श्री के. डी. पुरी एवं उक्त फर्म का कार्यालय द्वितीय तल, भसीन आर्केड, गोरखपुर में स्थित हो गया है. अतः उपरोक्त बदलाव, संशोधनों में यदि किसी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था वित्तीय/ऋण संस्था या किसी व्यक्ति विशेष या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिनों के भीतर हमारे कार्यालय में आकर सम्पर्क करें. 989 डीएन जैन स्कूल के सामने, गोलबाजार, जबलपुर समय-सीमा उपरांत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

मैसर्स निपानी इण्डस्ट्रीज,

राजीवपुरी,

(भागीदार)

जबलपुर.

(377-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स बाबा इन्टरप्राइजेज के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/03/00263/11, दिनांक 05-11-2011 है. इस फर्म से दिनांक 01-04-2016 से एक भागीदार तनवीर खान, निवासी वार्ड नं. 18 नियर भंडारिया स्कूल चाँदागेटा, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा पृथक् हो रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में 01-04-2016 से तनवीर खान पुत्र श्री अजीज खान, निवासी नं. 08 नियर भंडारिया स्कूल चाँदागेटा, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा शामिल हो रहे हैं. इस संशोधन उपरांत भागीदारी फर्म के भागीदारी क्रमांक 1 का 11 प्रतिशत एवं भागीदारी क्रमांक 2 का भागीदारी 20 प्रतिशत होगा. अतः उक्त भागीदारी फर्म से दिनांक 01-04-2016 को संशोधन उपरांत 2 भागीदारी रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस नं. 18 नियर भंडारिया स्कूल चाँदागेटा, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

मैसर्स बाबा इन्टरप्राइजेज,

मोहम्मद अनीस,

(भागीदारी)

छिन्दवाड़ा

(378-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म अमृतधारा डेवलपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था. जिसका प्रमाण-पत्र क्रमांक 01/01/01/00506/14, दिनांक 28-02-2014 था. जिसका कार्यालय पूर्व में शॉप नं. 2 सैकण्ड फ्लोर अलार्क काम्प्लेक्स, लालघाटी स्कवायर, भोपाल था. जो कि वर्तमान में स्थानान्तरित होकर ए-110, कृष्णाचल अपार्टमेन्ट, परि बाजार, भोपाल गेट के पास, भोपाल गया है. साथ ही उपरोक्त फर्म में निम्न पार्टनर क्रमशः (1) सुनील कुमार जैन आ. श्री देवचन्द जैन, निवासी रघुनाथगंज, पोस्ट ऑफिस के सामने, कटनी (म.प्र.), (2) श्रीमती सरिता जैन पति श्री सुनील कुमार जैन, निवासी रघुनाथगंज, पोस्ट ऑफिस के सामने, कटनी (म.प्र.) व (3) चन्द्रप्रकाश लालवानी आ. स्व. श्री दयाराम लालवानी, निवासी-53, बी. डी. ए. कॉलोनी, टीलाजमालपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश रिटायर्ड हो चुके हैं और दिनांक 01-04-2016 से अन्य दो पार्टनर क्रमशः (1) राजकुमार जैन आ. श्री तेज कुमार जैन, निवासी 127, जैन नगर लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) एवं (2) चिराग सिंघई आ. श्री चन्द्रकुमार सिंघई, निवासी 54, गिरधर नगर, तिलक नगर के पास, इन्दौर (म.प्र.) फर्म में सम्मिलित हुए हैं. यह आमसूचना फर्म के नये पते या पुराने तीनों पार्टनरों के रिटायर्ड होने और दो अन्य नये पार्टनरों के फर्म में सम्मिलित होने के संबंध में प्रकाशित किया जा रहा है.

मैसर्स अमृतधारा डेवलपर्स,

संदीप कुमार जैन,

(भागीदार).

भोपाल.

(379-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स परिहार एसोसियेट्स, रीवा, पंजीयन क्रमांक-73, दिनांक 28-08-2009 के पते एवं संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है:-

<u>पूर्व पता</u>	<u>नवीन पता</u>
वार्ड नं. 7, स्टेडियम के सामने	मकान नं.-3/83/1
बोदा बाग, रीवा (म.प्र.).	ए. जी. कॉलेज रोड़, पड़रा रीवा (म.प्र.).
फर्म में सम्मिलित होने वाले पार्टनर-	श्री अंशू परिहार
फर्म से पृथक् होने वाले पार्टनर-	1. श्री कालीचरण शर्मा
	2. श्रीमती विनीता परिहार.

शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे. उक्त परिवर्तन दिनांक 01-04-2016 से किया गया है.

(380-बी.)

भवदीय  
मैसर्स परिहार एसोसियेट्स,  
राजेश परिहार,  
(भागीदार).  
रीवा (म.प्र.).

**आम सूचना**

हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मै. डियर हिल फर्म द्वारा भागीदारी विलेख का पुनर्गठन किया जा रहा है. मै. डियर हिल फर्म में वर्तमान में सचिन गुप्ता एवं ज्ञानबाबू यादव भागीदार के रूप में कार्यरत हैं. मै. डियर हिल फर्म प्रदीप यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव एवं गिर्राज सिंह पुत्र इन्दर सिंह को सचिन गुप्ता एवं ज्ञानबाबू यादव के अतिरिक्त फर्म में भागीदार के रूप में संयोजित किया जा रहा है. मै. डियर हिल फर्म में भागीदार संयोजित करने सहित पुनर्गठन बावत् किसी बैंक, संस्था अथवा किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में लिखित में मेरे कार्यालय में मय दस्तावेज के प्रस्तुत करें अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा उक्त नियत अवधि के पश्चात मै. डियर हिल फर्म के पुनर्गठन बावत् कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी और उसके पश्चात् की गयी किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तदनुसार आमजन सूचित हो.

**MAHESH PRASAD AGRAWAL,**  
(Advocate).

101, Royal Plaza Opp.  
Old High Court Lashkar,  
Gwalior (M.P.).

(381- B.)

**आम सूचना****भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधीन सूचना-पत्र**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अलायना इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड कार्यालय-सी-35, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00308/14, दिनांक 01-10-2014 उक्त फर्म की भागीदारी में श्रीमती सुमंगला भण्डारी पति श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी, उम्र 52 वर्ष, निवासी ई-5/193, बी-1, अरेरा कॉलोनी, भोपाल फर्म के भागीदार के रूप में दिनांक 06-09-2016 से सम्मिलित (Induct) की गयी हैं एवं श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी आत्मज स्व. श्री सोहन लाल भण्डारी, उम्र 56 वर्ष, निवासी ई-5/193, बी-1, अरेरा कॉलोनी, भोपाल फर्म की भागीदारी से दिनांक 06-09-2016 से बाहर हो गये हैं.

(383-बी.)

मैसर्स अलायना इंडस्ट्रीज,  
(1) निष्ठा पचौरी, (2) सुनील शर्मा,  
(3) राजेन्द्र कुमार भण्डारी, (4) सुमंगला भण्डारी.  
(भागीदार)

सी-35, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.).

**आम सूचना****भारतीय साझेदारी विधान, 1932 की धारा-63 (1) के अन्तर्गत सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार भागीदारी फर्म काम्प्रेसर एण्ड ऑटो ट्रेक्टर पार्ट्स, जिसका पंजीयन क्र. 2809,

दिनांक 16-12-1976 है एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता 34, सियागंज मेहता चेंबर इन्दौर (1) श्री किरिट के शाह, (2) श्री धीरूभाई के शाह, (3) श्री राजेन्द्र बी. शाह, (4) श्रीमती निर्मला बी. शाह, भागीदार रहे हैं जिसमें दिनांक 30 अप्रैल, 1978 को दो भागीदार श्री राजेन्द्र बी. शाह एवं श्रीमती निर्मला बी. शाह रिटायर हुए हैं तथा उक्त दिनांक को श्रीमती आशा एन. शाह नई भागीदार नियुक्त की गई और भागीदारों को आपस में खाता सेटल किया गया। तत्पश्चात् उक्त भागीदार फर्म में (1) श्री किरिट शाह, (2) धीरू भाई के. शाह, (3) श्रीमती आशा एन. शाह, भागीदार रहे। जिनमें दिनांक 31 जुलाई, 1991 को दो भागीदार (1) श्री किरिट के. शाह, (2) श्रीमती आशा एन. शाह रिटायर हो गये हैं तथा उक्त दिनांक को श्री नयन भाई के. शाह उक्त फर्म में नये भागीदार नियुक्त किये गये हैं तथा भागीदारों का आपस में खाता सेटल हो गया है। वर्तमान में उक्त भागीदारी फर्म में दो पार्टनर मौजूद हैं। (1) श्री धीरू भाई शाह, (2) नयन भाई शाह है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति अथवा संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो वह लिखित में स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वयं अथवा वकील के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म के रजिस्टर्ड ऑफिस में 7 दिनों में सूचित करें।

1. पार्टनर (धीरू भाई शाह), 2. पार्टनर (नयन भाई शाह)।

गोपाल शर्मा ( भारद्वाज )

( हाईकोर्ट एडवोकेट ),

29/5, न्यू, रानीपुरा, परदेशीपुरा, इन्दौर.

(384-बी.)

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 30 अगस्त, 2016

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 से 21 अप्रैल, 2016

#### संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

वि. क्र. 8713/29/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-01/परीक्षा/2015/29 अक्टूबर, 2015, ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 04 दिसम्बर, 2015 (शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/04 दिसम्बर 2015 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसम्बर, 2015 है) (I) शुद्धिपत्र क्रमांक 01/01/परीक्षा/2015/20 नवम्बर, 2015 पद विवरण में संशोधन की सूचना (II) शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/04 दिसम्बर, 2015, विज्ञापन में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना, राज्य सेवा परीक्षा के कुल-410 पदों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015, मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर, में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 से 21 अप्रैल, 2016 तक प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक एवं निबन्ध एवं अपठित गद्यांश प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार अनारक्षित-255, अनुसूचित जाति-65, अनुसूचित जनजाति-75 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-45 कुल-410 पदों के लिये संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित है। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है। यह परीक्षाफल आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-8713/29/2016/अनु.-10, दिनांक 30 अगस्त, 2016 द्वारा घोषित किया जा रहा है। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित है। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-1244 है, इनमें अनारक्षित 684, अनुसूचित जाति 196, अनुसूचित जनजाति 226 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 138, महिला कुल-411, निःशक्तजन (अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित) कुल-60, भूतपूर्व सैनिक कुल-10, सम्मिलित है। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक प्राप्त आवेदक सम्मिलित है।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक, सेवा का प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा की वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

(715)

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक.

इन्दौर, दिनांक 30 अगस्त, 2016

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 से 21 अप्रैल, 2016

लिखित परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 8713/29/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-01/परीक्षा/2015, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015, ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 04 दिसम्बर, 2015 (शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/04 दिसम्बर 2015 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसम्बर, 2015 है) (I) शुद्धिपत्र क्रमांक 01/01/परीक्षा/2015/20 नवम्बर, 2015 पद विवरण में संशोधन की सूचना. (II) शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/04 दिसम्बर, 2015, विज्ञापन में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना. (III) शुद्धिपत्र क्रमांक 03/01/परीक्षा/2015/16 अगस्त, 2016 पदों में संशोधन की सूचना, राज्य सेवा परीक्षा के अनारक्षित-255, अनुसूचित जाति-65, अनुसूचित जनजाति-75 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-45 कुल-410 पदों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015, मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर, में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 से 21 अप्रैल, 2016 तक प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक एवं निबन्ध एवं अपठित गद्यांश प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षाफल आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-8713/29/2016/अनु.-10, दिनांक 30 अगस्त, 2016 द्वारा घोषित किया जा रहा है. उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित है. प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है.

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-1244 है, इनमें अनारक्षित 684, अनुसूचित जाति 196, अनुसूचित जनजाति 226 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 138, महिला कुल-411, निःशक्तजन (अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित) कुल-60, भूतपूर्व सैनिक कुल-10, सम्मिलित है. अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक प्राप्त आवेदक सम्मिलित है.

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक, सेवा का प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा की वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं. अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी. परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह पाए गए 1244 आवेदकों के रोल नम्बर एवं नाम की सूची निम्नानुसार है:—

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE MAIN EXAM 2015

ROLL NO WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1.	100013	RAMKRISHNA BAMNIYA	
2.	100019	REENA KIRADE	
3.	100031	POORNIMA CHURIHAR	
4.	100106	PRIYANKA CHAUHAN	
5.	100291	PRAVEEN SHRIWAS	
6.	100412	YOGITA MUKATI	
7.	100482	PAYAL BISEN	
8.	100542	SHOBHA CHAUHAN	
9.	100611	MONALI SURYAVANSHI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
10.	100632	POOJA DWIVEDI	
11.	100656	VIPIN NANDE	
12.	100746	PADMA PATEL	
13.	100817	SAMKIT JAIN	
14.	100827	SARVENDRA KUMAR PANDEY	
15.	100973	SAPNA RAI	
16.	101035	BHUPENDRA DEV PARMAR	
17.	101038	VIKAS RAGHUWANSHI	
18.	101092	VIKAS MANDLOI	
19.	101221	SHIVANI MAHENDRA SHRIVASTAVA	
20.	101256	PRIYANKA VERMA	
21.	101273	CHETAN SHINDE	
22.	101299	SONIKA SINGH	
23.	101366	ASHUTOSH DWIVEDI	
24.	101375	ADITYA TIWARI	
25.	101409	SUNEEL KUMAR WARKADE	
26.	101533	KULDEEP BARIA	
27.	101563	NIDHI DHAKAR	
28.	101576	RAJSHREE KHANNA	
29.	101603	ISHITA MASANIYA	
30.	101729	PARUL SHARMA	
31.	101855	ANIL BAGHEL	
32.	102068	SHIRALI JAIN	
33.	102090	MONIKA SINGH	
34.	102140	AKASH SITOLE	
35.	102149	MANDAKINI DIXIT	
36.	102164	RISHU KUMAR SUMAN	
37.	102212	SAMUEL VIBHUTE	
38.	102240	MANISH BARVE	
39.	102283	SATENDRA SINGH GURJAR	
40.	102354	AKHILESHWAR SINGH	
41.	102416	SONU DAWAR	
42.	102435	SHIVANI TARETIYA	
43.	102518	JITENDRA PRASAD	
44.	102522	LOVENEET KORI	
45.	102530	RAJENDRA SINGH SOLANKI	
46.	102628	SONU INDORIYA	
47.	102701	NISHANK JAIN	
48.	102862	RAHUL SINGH TANWAR	
49.	102903	PRASHANT NAGDEVE	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
50.	102934	SANTUSHTI PAL	
51.	102976	PUSHPANJALI AJNARE	
52.	102983	PRIYANKA GUVATIYA	
53.	103300	DEEPAK CHOUHAN	
54.	103315	AMRATA JAIN	
55.	103479	JITENDRA ALAWA	
56.	103637	LATA CHOUHAN	
57.	103646	ARCHNA TRIPATHI	
58.	104157	LAKHAN KUMAR VALMIKI	
59.	104308	SHRIRAM KESHRI	
60.	104441	SANDHYA SARYAM	
61.	104479	MEENAKSHI BORDIYA	
62.	104537	ABHISHEK SINGH MEENA	
63.	104686	SHIVANI WASKEL	
64.	104719	RAJESH LILHARE	
65.	104728	OMPRAKASH PATIDAR	
66.	104811	KRATIKA SHINDE	
67.	104916	PRANAV JAIN	
68.	105091	PRAVIN NAWANGE	
69.	105129	RAKESH BHURIYA	
70.	105447	SATENDRA SINGH GURJAR	
71.	105527	AMIT KUMAR YADAV	
72.	105529	ASHISH YASWAL	
73.	105634	SUNIL SHIRSATH	
74.	105674	RAMPAL SINGH KARJARE	
75.	105756	PRIYA VERMA	
76.	105759	MANISH BHAWAR	
77.	105802	NAMITA RATHORE	
78.	105823	JITENDRA SOLANKI	
79.	105831	RAKESH KUMAR AHAKE	
80.	105839	LALJI MARAVI	
81.	105853	VIJAY KUMAR YADAV	
82.	105919	ABHILASH MERAVI	
83.	105973	VINOD KUMAR WAHANE	
84.	106004	ANSHU JAWALA	
85.	106041	ALOK KUMAR JAIN	
86.	106054	NIDHI SAXENA	
87.	106124	ABHISHEK HAZARI	
88.	106186	ARCHANA MANDLOI	
89.	106190	VANDANA DHUMKETI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
90.	106380	RAMESH KALESH	
91.	106427	RASHMI DHURVE	
92.	106757	MAYANK KUMAR JAIN	
93.	106761	NEHA SONI	
94.	106854	VIVEK SINGH	
95.	106973	BHUPENDRA RAWAT	
96.	107109	YOGESH MESHRAM	
97.	107244	HIMANSHU KARTIKEY	
98.	107403	RAVINDRA DEWADA	
99.	107420	RITESH TANDIYA	
100.	107430	KIRTI CHOUHAN	
101.	107558	RAVENDRA MISHRA	
102.	107704	DEEPIKA JHALA	
103.	107906	PARAG PANTHI	
104.	108263	RENU THAKRE	
105.	108409	RAVI BADOLE	
106.	108617	KULDEEP SINGH CHOUHAN	
107.	108697	VANDANA RAJPUT	
108.	108805	NEERAJ SINGH	
109.	108824	RISHI KUMAR SINGHAI	
110.	108993	PANKAJ DWIVEDI	
111.	109050	RAVI MALVIYA	
112.	109071	HEMLATA SHARMA	
113.	109217	SATISH KUMAR BURDE	
114.	109303	NITIN KUMAR CHOUDHARY	
115.	109365	APURVA KILLEDAR	
116.	109675	ANIMESH JAIN	
117.	109765	DURGESH VERMA	
118.	109857	AKANKSHA SINGH	
119.	109912	NIKHIL JAIN	
120.	109975	AKSHAY SINGH MARKAM	
121.	110037	JWELIKA VYAS	
122.	110043	PIYUSH KUMAR MISHRA	
123.	110067	VIKASH VERMA	
124.	110096	KAMRU HATILE	
125.	110165	SUNIL SINGUNE	
126.	110186	SURENDRA KUMAR PATEL	
127.	110204	SANDEEP SINGH GOND	
128.	110257	PANKAJ LAHOTI	
129.	110281	LAKHAN SINGH SISODIYA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
130.	110293	SONU PARMAR	
131.	110518	DIWAKAR MISHRA	
132.	110555	JAYSHRI CHAUHAN	
133.	110569	PRADEEP KUMAR SHARMA	
134.	110629	SHIVPRATAP SINGH BAGHEL	
135.	110888	NAMRATA SHUKLA	
136.	111104	RAJENDRA SINGH	
137.	111138	HARIOM GURJAR	
138.	111258	RANJANA BAGHEL	
139.	111398	MANEESH KUMAR JAIN	
140.	111403	AMIT SOLANKI	
141.	111464	PINTU RAWAT	
142.	111604	PAWAN BARIYA	
143.	111720	JAYA MUJALDE	
144.	111827	SURYAKANT SIRVAIYA	
145.	112100	VINEETA PATIDAR	
146.	112106	SHRISHTI BHARGAV	
147.	112136	DESHDEEPAK SINGH	
148.	112142	RAVIN AWASYA	
149.	112183	MANISH CHOUDHARY	
150.	112390	RAHUL GUPTA	
151.	112408	RAHUL GUPTA	
152.	112466	SITA PRASAD BAIS	
153.	112489	AKASH YADAV	
154.	112506	KAMLESH PATIDAR	
155.	112575	POORTI TIWARI	
156.	112643	REENA PATEL	
157.	112722	DR PUNEET SHUKLA	
158.	112744	BHARATI DEVI MISHRA	
159.	112804	ALFIYA KHAN	
160.	112837	RAVINDRA WASKLE	
161.	112893	MOTILAL KUSHWAHA	
162.	112964	PRIYANKA MIMROT	
163.	113114	LOKESH DAWAR	
164.	113144	PANKAJ KUMAR MISHRA	
165.	113298	PUNEET GEHLOD	
166.	113340	REENA CHOUHAN	
167.	113362	ABHILASH KUMAR BHALAVI	
168.	113512	DAYARAM GURJAR	
169.	113515	AKHILESH UMARIYA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
170.	113592	PAWAN KANDWAL	
171.	113607	KULDEEP SINGH THAKUR	
172.	113666	SAUDAMINI SHIVHARE	
173.	113668	DIPI CHOURASIYA	
174.	113669	MANOJ KUMAR SHIVHARE	
175.	113672	JITENDRA SINGH TOMAR	
176.	113679	ANJALI PANWAR	
177.	113747	BRAJKISHOR CHOUHAN	
178.	113808	SHAILENDRA SINGH BUNDELA	
179.	113822	ANJALI SHARMA	
180.	113828	AJIT DONGRE	
181.	113861	VANDANA JAIN	
182.	113943	GOVIND SINGH THAKUR	
183.	113964	RAMSEVAK MEENA	
184.	114001	PANKAJ DAWAR	
185.	114154	SANDEEP BHILALA	
186.	114205	POOJA BHORJAR	
187.	114293	KANCHAN TIWARI	
188.	114437	ARJUN SINGH BHADORIA	
189.	114526	ARJUN MEENA	
190.	114629	PRAHLAD DODARIYA	
191.	114891	DEVNANDINI BAGHEL	
192.	114917	ROSHANI PATIDAR	
193.	114972	PRADEEP DAMOR	
194.	115060	BHARTI JAT	
195.	115189	DURGA BAMNIYA	
196.	115232	DEEPASHRI GUPTA	
197.	115234	DURGESH SINGH THAKUR	
198.	115438	MARISHA SHINDE	
199.	115470	POORVI JAIN	
200.	115714	DEEPA CHATURVEDI	
201.	115820	MAHENDRA PATIDAR	
202.	116042	SHANTI CHHURA	
203.	116050	VIMLESH UIKEY	
204.	116151	SAVITA BHAYARE	
205.	116268	KAMLESH KUMAR PATIDAR	
206.	116360	BHAVANA PATNE	
207.	116386	ASHISH BHARADE	
208.	116571	BHARTI DANGI	
209.	116759	AMIT KUMAR SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
210.	116890	DIVYA SHARMA	
211.	117051	DEEPTI KATROLIYA	
212.	117064	VINOD ANANT	
213.	117130	PRIYANKA RAWAT	
214.	117202	JUHI GUPTA	
215.	117397	MUKESH KUMAR PATLE	
216.	117647	CHANDRA SHEKHAR PANDEY	
217.	117832	PRABAL ARJARIYA	
218.	117913	ROHIT PATEL	
219.	118049	SONAL SIDAM	
220.	118105	VAISHALI SISODIYA	
221.	118124	APOORV BHALAVI	
222.	118196	AKSHAY VISHWAKARMA	
223.	118212	SAURABH RATNAKAR	
224.	118329	MANOJ SOLANKI	
225.	118355	RAM KRISHNA AHIRWAR	
226.	118360	PRAVIN KUMAR THAKUR	
227.	118432	JAYSHREE VERMA	
228.	118433	DHEERA GUPTA	
229.	118618	EKTA SONI	
230.	118670	VIJAY SOLANKI	
231.	118750	RAHUL KUMAR PAAR	
232.	118816	RAMLAL PAGARE	
233.	118836	JITENDRA SINGH GEHLOT	
234.	118944	NIRUPAMA PALIWAL	
235.	119012	SUNITA NARGAVE	
236.	119021	GAURI SHANKAR RAJPUT	
237.	119041	RANJANA BAGRI	
238.	119445	AMARDAS SENANI	
239.	119450	ASHISH KUMAR PATEL	
240.	119485	VIKAS AGRAWAL	
241.	119548	ROOPREKHA YADAV	
242.	119598	PRIYANKA TIWARI	
243.	119608	ASHWINI RANPISE	
244.	119626	NITIN MITTAL	
245.	119751	SHIKHA BHALAWI	
246.	119766	RAVIKANT GIRWAL	
247.	119868	DINESH KUMAR CHANDEL	
248.	120448	SURESH DEVRA	
249.	120489	SUNITA BHATT	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
250.	120505	PRASANNA CHAKRAVARTI	
251.	120713	CHANCHAL THAKRE	
252.	120727	SUYANKA CHAURASIYA	
253.	120745	RAVINDRA SINGH CHOUHAN	
254.	120797	ABHINAV MISHRA	
255.	120816	SHABERA ANSARI	
256.	120836	ASHISH KUMAR JAIN	
257.	120935	RAGHU KESHARI	
258.	121196	ANURADHA SAKWAR	
259.	121556	VIKAS THAKUR	
260.	121611	SUNIL KUMAR RANA	
261.	121641	TARUN ANIYA	
262.	121649	NIKHILESH RAKESHIYA	
263.	121659	KAMLESH KUMAR CHAUDHARY	
264.	121794	DIVYA PATEL	
265.	121846	SHOBHANA THAKUR	
266.	121894	AMIT KUMAR JAIN	
267.	121917	RAVI VARMA	
268.	121953	SURESH KUMAR SONI	
269.	122075	KSHITIJ SONI	
270.	122106	PRIYANKA MISHRA	
271.	122126	PRATISHTHA RATHORE	
272.	122296	VIKAS SOLANKI	
273.	122364	ANSHUMAN SINGH	
274.	122406	SHASHANK JAIN	
275.	122417	HEMANT KHER	
276.	122426	GHANSHYAM DHANGAR	
277.	122861	GRAVITA BHINDE	
278.	122944	ALOK PANDEY	
279.	122951	PALLAVI SHUKLA	
280.	122990	AKANKSHA UPADHYAY	
281.	122995	ANKIT CHOUHAN	
282.	123006	LOKENDRA SINGH SARAL	
283.	123065	VANIMA PARDHI	
284.	123109	GOURAV BHADRASEN	
285.	123401	DEEPAK ARYA	
286.	123551	RAJENDRA MEHRA	
287.	123603	SURAJ SINGH JATAV	
288.	123657	JAYDEV DEEPANKAR	
289.	123767	PRAVEEN OHARIYA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
290.	123885	HEMLATA SUNHARE	
291.	124018	HIMANI MISHRA	
292.	124027	SHASHI MISHRA	
293.	124263	SHELENDRA BHIL	
294.	124420	SANTOSH KUMAR MISHRA	
295.	124449	LALIT SINGH SIKARWAR	
296.	124495	SHAIENDRA KUMAR CHAUKSEY	
297.	124646	ASMITA SASANE	
298.	124731	ANIMESHA GARPAL	
299.	124841	MEENAKSHI REVALE	
300.	124866	PANKAJ PAVAIYA	
301.	124883	KAMLESH GOLE	
302.	124972	SUMIT KUMAR GUPTA	
303.	124995	SANGITA KANASEY	
304.	125195	SAHADEV MOURE	
305.	125582	MAMTA PATEL	
306.	125642	VIMLESH RATHORE	
307.	126443	DINESH MUWEL	
308.	126512	NEERAJ KUMAR TIWARI	
309.	126540	NANDLAL GAMAD	
310.	126589	SWATI JAIN	
311.	126661	SANDEEP IVANE	
312.	126701	PAYAL ASATKAR	
313.	126936	NARENDRA KUMAR MORCHHALE	
314.	126962	PINKI DAWAR	
315.	127040	PREM Shankar PARMAR	
316.	127122	RAHUL MISHRA	
317.	127124	UDIT MISHRA	
318.	127210	SHIVANI SHUBHAM	
319.	127304	SWARNALATA KAJALE	
320.	127367	POOJA JAIN	
321.	127441	SUSHIL THAKUR	
322.	127569	NIDHI JAIN	
323.	127570	SHIV SHANKAR SHUKLA	
324.	127605	SURESH KUMAR MESHAM	
325.	127647	NAMRATA SONDHIA	
326.	127683	RAJU DAWAR	
327.	127748	NEELES SINGH YADAV	
328.	127787	LALITA GADARIYA	
329.	127795	ARVIND SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
330.	127805	OSHIN VICTOR	
331.	127967	DEEPALI KHANDELWAL	
332.	128008	RAJKISHOR SINGH GURJAR	
333.	128086	NEELU BAGRI	
334.	128096	KARMENDRA SAWALE	
335.	128155	RAVI SHARMA	
336.	128222	SAURABH SHARMA	
337.	128263	SHAKTI SINGH CHOUHAN	
338.	128329	RAVI PRAKASH KOL	
339.	128336	BHAWAR SINGH CHOUHAN	
340.	128432	NEHA PACHISIA	
341.	128529	NILESH KUMAR GUPTA	
342.	128665	ABHAY SINGH	
343.	128778	LOKESH CHOUHAN	
344.	128789	SONAM RAWAT	
345.	128872	ANKITA JAIN	
346.	128945	SUPRIYA PATHAK	
347.	129067	AASTHA CHOURSIYA	
348.	129241	ASHISH RATHOR	
349.	129343	RISHIBHA SINGH NETAM	
350.	129351	NISHA GUPTA	
351.	129464	DEEPTI CHAUDHARY	
352.	129501	KRIPENDRA AHIRWAR	
353.	129509	SHAIFALI JAIN	
354.	129627	SUNIL SISODIYA	
355.	129751	SATENDRA GUPTA	
356.	129984	SOURAV TIWARI	
357.	130017	MANOJ KUMAR MOURYA	
358.	130054	JAGAR SINGH RAWAT	
359.	130072	SOURABH DWIVEDI	
360.	130118	ABHIYANK CHOUDHARY	
361.	130278	RAJENDRA SINGH RAWAT	
362.	130384	RAKESH KUMAR JALVANIA	
363.	130414	RAVI SHARMA	
364.	130463	RADHA BHADAURIA	
365.	130514	POOJA NAMDEV	
366.	130542	HARSHIT UIKEY	
367.	130609	SURESH NAGAR	
368.	130654	KIRAN AHIRWAR	
369.	130749	PRIYA SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
370.	130800	DEVENDRA SINGH THAKUR	
371.	130812	JAINENDRA PRATAP SINGH	
372.	130840	RAVINDRA KUMAR IKWALE	
373.	130885	LAVINA GHAGRE	
374.	131297	MUKESH PALIWAL	
375.	131478	GANISH PRASAD CHANDRAVANSI	
376.	131499	ABHISHEK PANDEY	
377.	131614	MAHENDRA CHOUHAN	
378.	131666	PUSHPENDRA THAKUR	
379.	131797	REETIKA PATIDAR	
380.	132001	JEETENDRA CHOURASIYA	
381.	132078	OM PRAKASH PARMAR	
382.	132112	RASSU DAMOR	
383.	132233	AADITYA RAJ CHAUHAN	
384.	132284	BHAVANA BARODIYA	
385.	132619	DR LAXMI PARMAR	
386.	132677	SANDEEP KUMAR	
387.	132689	ANKITA GUPTA	
388.	133114	POOJA GEHLOT	
389.	133413	ROSHNI PANDEY	
390.	133478	MUKESH RAJ DANGI	
391.	133566	CHANDRA SHEKHAR VYAS	
392.	133567	AAKANSHA BECHHOTE	
393.	133576	REENA KUMARIYA	
394.	133624	DURGESH NANDINI SHARMA	
395.	133937	KAMAL SINGH SOLANKI	
396.	134666	RAMA THAKUR	
397.	135209	RAM KUMAR SHARMA	
398.	135499	SUBHASH ALAWE	
399.	135544	ANANDILAL DALODIA	
400.	135595	RAHUL CHOUDHARY	
401.	135637	ADITYARAJ SINGH THAKUR	
402.	135713	KUNAL KHERADIYA	
403.	136744	RAM PORWAL	
404.	136751	VIVEK PATIDAR	
405.	136924	ANURAG TIWARI	
406.	137311	GAURAV YADAV	
407.	137794	YOGESH JATWA	
408.	137885	JEEVAN KUMAR DETHALIYA	
409.	138329	OJASVI KALE	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
410.	138465	SHIV PRATAP SINGH	
411.	138647	UTTAM KUMAR DWIVEDI	
412.	138798	PRABHAT KUMAR PATTI	
413.	139144	RAVI SHANKAR DWIVEDI	
414.	139274	ANUPAM DUBEY	
415.	139519	BHISHMA KUMAR PRAJAPATI	
416.	139911	NIMESH DESHMUKH	
417.	140124	LAXMI VERMA	
418.	140986	RAVI SHANKAR PANDEY	
419.	141733	ABHIRUCHI KANAUIYA	
420.	142032	MANEESH KUMAR SOLANKI	
421.	142234	FIRDOSH SHAH	
422.	142850	PANKAJ PARIHARE	
423.	142911	KANCHAN WASKALE	
424.	143024	PINTOO KUMAR BAGHEL	
425.	143404	ASHISH MISHRA	
426.	143467	VEERENDRA KUMAR MARKO	
427.	143550	HITENDRA KASHIKAR	
428.	143635	SAURABH TOMAR	
429.	143946	KUMAR ABHINAV	
430.	144008	KAMAL SINGH CHOUHAN	
431.	144197	RITURAJ SINGH CHOUHAN	
432.	144578	NANDRAM CHOUHAN	
433.	144766	RAJSHREE BUNDEL	
434.	146032	RAJESH SINGH YADAV	
435.	146070	AATMARAM SOLANKI	
436.	146109	VIJENDRA BHALEKAR	
437.	146257	NEHA CHOUHAN	
438.	146315	LOKENDRA GUPTA	
439.	146452	RAJESH KOCHALE	
440.	146515	BONDAR DAWAR	
441.	146659	ANTIM KUMAR JAISWAL	
442.	146806	PREMLAL GOURE	
443.	147171	NARENDRA MUWEL	
444.	147431	NEELESY YADAV	
445.	147453	RAVI PATEL	
446.	147501	RITA KAILASIA	
447.	147662	SUNIL SEMAR	
448.	147853	ASHUTOSH SHRIVASTAVA	
449.	147862	RANJEET SINGH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
450.	147912	VARSHA PARIHAR	
451.	147960	AJAY PRATAP SINGH	
452.	148066	DEEPAM KAUSHAL	
453.	148129	VIKAS DUTT SHARMA	
454.	148380	PRADEEP SINGH	
455.	148397	PRAVEEN KUNDAN	
456.	148636	ARCHANA PARIHAR	
457.	148869	SANGEETA SINGH	
458.	149180	VINOD VIJOLIYA	
459.	149255	KRISHNA PAL SINGH	
460.	149878	ATIRAJ SENGAR	
461.	149934	ANKIT KHANDELWAL	
462.	150127	RAVI SHANKAR PAVAIYA	
463.	150422	RASHMI RAJAVAT	
464.	150916	ARVIND BOUDHA	
465.	150981	DEEPAK PATHAK	
466.	151094	SUNEEL KUMAR SINGH BHADORIA	
467.	151097	AJAY KUMAR RITHORIYA	
468.	151203	AJAY KUMAR PANDORIYA	
469.	151303	DIVYA SINGH RAJAWAT	
470.	151316	VEERENDRA DHARVE	
471.	151444	SANGITA DEVI YADAV	
472.	151615	VIKAS KUMAR SINGH	
473.	151687	AMAN SINGH LOHAN	
474.	152085	PANKAJ RAJPOOT	
475.	152271	ANOOP PACHAURI	
476.	152718	RASHMI MISHRA	
477.	152870	PAWAN SINGH	
478.	152892	RATNESH SHARMA	
479.	153181	HIMANI YADAV	
480.	153241	PREETI JATAV	
481.	153343	KAPIL VYAS	
482.	153381	GAURAV JAIN	
483.	153476	ARIF KHAN	
484.	153491	SHARIB KAUSAR	
485.	153852	NAVNEET DHILLON	
486.	153991	DESHRAJ MAHOUR	
487.	154410	KAUSHLESH PATHAK	
488.	155105	BHEEM RAO ANAND	
489.	155422	JANKI RAMAN SINGHAL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
490.	155447	HEMANT NAGAR	
491.	155612	AJEET YADAV	
492.	156328	MUKESH KUMAR BHATELE	
493.	156567	GAGAN BAJPAYEE	
494.	156623	ANAND YADAV	
495.	156629	SHEPHALI AGRAWAL	
496.	156653	PRABHANSHU KUMAR SINGH	
497.	156832	AMIT DUBEY	
498.	156929	MUKUL NIRMAL	
499.	156961	NITIN KUMAR	
500.	156975	AUGNEESH GOYAL	
501.	157053	SURENDRA KUMAR VIMAL	
502.	157293	BHARTENDRA PRATAP SINGH	
503.	157542	ARVIND SINGH MAHOR	
504.	157597	JAYDEV SHARMA	
505.	157636	RAJESH SINGH MAHOR	
506.	157647	RAVI SINGH BHADAURIYA	
507.	157735	ANAND SHRIVASTAVA	
508.	157786	HEMANT KUMAR DHAKAR	
509.	157983	ADITYA SINGH BHADAURIYA	
510.	158139	DEEPIKA SURYAVANSHI	
511.	158232	ADARSH PATHAK	
512.	158251	RAMKUMAR GAUTAM	
513.	158271	SANGH PRIY SAMRAT	
514.	158471	GAURISHANKAR RAWAT	
515.	158741	ANKUR RAVI GUPTA	
516.	158971	SUMINT SINGH TRIVEDIA	
517.	159020	VIKAS MATHE	
518.	159045	DEEPA SHARMA	
519.	159179	BRAHM KUMAR RAJORIYA	
520.	159276	BINDUSAR SINGH	
521.	159475	SUNITA THAKUR	
522.	159629	ARCHANA SHARMA	
523.	159661	POOJA SHIVHARE	
524.	159748	SANJEEV KUMAR NARWARIA	
525.	159931	ANURADHA SHARMA	
526.	160031	DEEPTI ARORA	
527.	160085	MAHENDRA SINGH GAUTAM	
528.	160112	RAHUL KUMAR PARIHAR	
529.	160119	PRAVEEN PRAKASH BESALA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
530.	160339	PARITOSH PARSANDIYA	
531.	160471	NARENDRA KUMAR PRAJAPATI	
532.	160486	NEELAM KHATEEK	
533.	160746	RAJ CHAURASIYA	
534.	160863	DEVAL PANDEY	
535.	160971	ARUN KUMAR MASRAM	
536.	160999	SAURABH AHIRWAR	
537.	161144	RAVI SHEKHAR SAHU	
538.	161224	RAJNISH KASHYAP KOL	
539.	161697	OMPRAKASH SINGH	
540.	161838	SAKET KUMAR BAGHEL	
541.	161912	RAHUL KUMAR YADAV	
542.	162076	RAJKUMAR NAGORIYA	
543.	162147	PRAVAL PRATAP SINGH TOMAR	
544.	162385	RUCHI AGRAWAL	
545.	162394	PANKAJ YADAV	
546.	162628	JYOTI YADAV	
547.	162674	ANJU TOMAR	
548.	162682	VANDNA KAITHAL	
549.	162715	DINESH KUMAR	
550.	162833	NARESH MUDGAL	
551.	162861	AJAYDEV JATAV	
552.	163303	BEERENDRA SINGH KUSHWAH	
553.	163499	PRADEEP KUSHWAH	
554.	163616	DEEPAK ARYA	
555.	164140	POONAM PRAJAPATI	
556.	164473	GIRIRAJ MAHOUR	
557.	164542	ASHUTOSH DINKAR	
558.	164789	AMIT DHANDA	
559.	164822	SATISH KUMAR DWIVEDI	
560.	165108	TARUNA SHIVHARE	
561.	165133	SHIVRANJAN SINGH	
562.	165262	PREM NANDAN SINGH	
563.	165411	SUBHASH SONI	
564.	165573	SURYAPRATAP SINGH CHAUHAN	
565.	165777	MANISHA MISHRA	
566.	166241	SAURABH TIWARI	
567.	166270	ARTEE YADAV	
568.	166553	PRASHANT KUMAR SHARMA	
569.	166736	RADHAVALLABH GURJAR	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
570.	166826	RAVI RAMAN PARASHAR	
571.	167329	AMIT SHRIVASTAVA	
572.	167491	AJAY SINGH NARWARIA	
573.	167499	GIRIRAJ DUBEY	
574.	167574	MINI AGARWAL	
575.	168277	ANIL KUMAR NARWARIYA	
576.	168402	VIVEK GAUD	
577.	168476	RATNESH KUMAR VAIDYA	
578.	168612	ASHISH KUMAR	
579.	168677	SHAILENDRA ADIWASI	
580.	168687	PRANAV ANANT KANITKAR	
581.	168769	AJAY KUMAR OJHA	
582.	168853	ARCHANA DINKAR	
583.	168942	VAISHALI ANAND	
584.	169161	SUSHIL KUMAR MISHRA	
585.	169245	RINKU SHARMA	
586.	169355	KUMAR RAJIV RANJAN	
587.	169957	UDAY BHAN BAGRI	
588.	170029	RANJEET SINGH KUSHWAH	
589.	170691	DEVENDRA GURJAR	
590.	171052	RAVISHANKAR YADAV	
591.	171696	GARIMA BAJPAI	
592.	172173	ANAND BIHARI MISHRA	
593.	172435	NIDHI YADAV	
594.	172545	SATENDRA SINGH KUSHWAH	
595.	172930	PARITOSH KUMAR SHILPKAR	
596.	172986	SANDEEP SINGH	
597.	173011	SATISH KUMAR JAYANT	
598.	173262	JAYPAL SINGH RAJPOOT	
599.	173357	MAHENDRA SINGH KUSHWAH	
600.	173534	ASHUTOSH KHARE	
601.	173547	PAVAN SHARMA	
602.	173616	VANDANA RAWAT	
603.	173763	SWATI PATHAK	
604.	173981	RAJ KUMAR RAI	
605.	174518	PUNNU SINGH PARASTEY	
606.	175237	HEMA KHARE	
607.	175243	RAVINDRA KUMAR SURYAVANSHI	
608.	175410	HINA KHAN	
609.	175437	SANAM BEE KHAN	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
610.	175485	SONAM SHARMA	
611.	175574	NAND KISHOR DAILBAR	
612.	175664	SEEMA SHARMA	
613.	175687	SURESH JADAV .	
614.	175796	RAJEEV KUMAR JAIN	
615.	175815	RAMVEER SINGH DHAKAR	
616.	175877	NARENDRA DHAKAD	
617.	175904	GAURAV JAIN	
618.	176269	ANIL KUMAR CHOUDHARY	
619.	176277	PRADEEP KUMAR BHARGAVA	
620.	176466	ROHIT RAGHUWANSHI	
621.	176722	PRIYANKA BUNKAR	
622.	177035	NEHA GOUR	
623.	177091	VISHAL SEN	
624.	177911	LALSINGH SAGAR	
625.	178018	ASHISH AGRAWAL	
626.	178051	PUSHPENDRA SINGH RAWAT	
627.	178069	HEENA KAUSOR	
628.	178115	AKASH SHARMA	
629.	178193	ARJUN SINGH SOLANKI	
630.	178199	JYESHTHA MAITREI ARYA	
631.	178288	BRAJESH BHEEL	
632.	178435	SATYENDRA LODHA	
633.	178444	RAY SINGH BHIL	
634.	178692	SURENDRA KUMAR AHIRWAR	
635.	178742	SUDHEER MOHAN AGRAWAL	
636.	178937	SIDDHARTH KHARE	
637.	179118	MEGHA RAJPOOT	
638.	179264	SANTOSH KUMAR PATEL	
639.	180026	MADHUR MISHRA	
640.	180177	SHAILESH KUMAR	
641.	180357	SANTOSH KUMAR KUSHWAHA	
642.	180549	MOHIT KUMAR YADAV	
643.	180585	RAMHIT VYAS	
644.	180616	AKANKSHA JAIN	
645.	180674	MOHAMMED IRSHAD	
646.	181002	SHIBALI CHATURVEDI	
647.	181064	PRADEEP MISHRA	
648.	181920	BRIJENDRA SINGH	
649.	181973	RAMBABU ANURAGI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
650.	182132	ANAND TIWARI	
651.	182321	GAURAV GUPTA	
652.	182980	CHANCHLESH MARKAM	
653.	183305	PRAMOD KUMAR SONI	
654.	183323	BANDU SURYAWANSHI	
655.	183571	MONIKA SONI	
656.	183585	KALPANA PAHADE	
657.	184165	SUBHASH DHURVE	
658.	184303	PRATIBHA BHALAVI	
659.	184472	SARITA VATTY	
660.	184700	RAGHUVAR SHAH UIKEY	
661.	184747	MONIKA VISHWAKARMA	
662.	185239	RADHESHYAM YADAV	
663.	185292	ROOPALI UIKEY	
664.	185345	KARUNA SAHU	
665.	185470	MANISH SHENDE	
666.	185808	AJAY CHAURAGADE	
667.	185942	PRIYA DEHARIYA	
668.	188584	JYOTI PANDEY	
669.	188730	RACHITA RAGHUWANSHI	
670.	189387	PEEYUSH BOPCHE	
671.	190005	SUCHITA EKKA	
672.	190348	PREETI RANI CHOURASIA	
673.	190381	PREETI DEHARIYA	
674.	190463	DEEPSHIKHA BHAGAT	
675.	190530	POOJA PANDEY	
676.	190650	CHANDRAKANT SAHU	
677.	190663	SUNIL KUMAR YADAV	
678.	190722	AJAY SINGH PARIHAR	
679.	190773	ANKITA PRAJAPATI	
680.	190842	AASHA THAKUR	
681.	190936	PREETI GATHRE	
682.	191003	VIJAY KUMAR DEHARIYA	
683.	191054	DEVENDRA KUMAR MARKAM	
684.	191110	RITU KATARHA	
685.	191145	VIVEK KUMAR PARASTE	
686.	191299	AMIT KUMAR CHOUBEY	
687.	191480	RICHA JAIN	
688.	191493	PRIYA PASI	
689.	191499	REETI SONWAY	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
690.	191560	SULTAN SHAH	
691.	191589	AMIT KUMAR TANTWAY	
692.	191604	PRAFULLA GATHRE	
693.	191639	PRATIBHA RAI	
694.	191793	SURENDRA KUMAR SAHU	
695.	191886	REETA YADAV	
696.	192102	SATYANARAYAN PARTE	
697.	192217	GEETANJALI SEN	
698.	192590	LALIT KUMAR KASHYAP	
699.	192641	HARSH KUMAR JAIN	
700.	192705	DHIRENDRA SINGH BAGRI	
701.	192736	SUMANLATA MARAVI	
702.	192904	VANDNA SINHA	
703.	192911	AKASH JAIN	
704.	192943	LALIT GATHRE	
705.	193336	RAJA RAMAN MARKO	
706.	193484	RAJEEV PATHAK	
707.	193733	MANISHA YADAV	
708.	193739	VIPIN SHAH DHUMKETI	
709.	193868	NIDHI RAJPUT	
710.	193882	AMIT SINGH THAKUR	
711.	194248	ABHAS KUMAR YADAV	
712.	194431	SARLA CHADAR	
713.	194551	DURGESH PATEL	
714.	194635	RAMANUJ PRATAP SINGH DHURVE	
715.	194743	AMIT VERMA	
716.	195043	ANSHUL TAMRAKAR	
717.	195086	SEEMA AMIT TIWARI	
718.	195421	ASHUTOSH PATEL	
719.	195501	KAMAL NATH DHURVE	
720.	195911	DIGAMBER PRASAD DASHARIYE	
721.	197053	RAMESH KUMAR PARASTE	
722.	197845	MEENA VERMA	
723.	197988	JYOTI PATEL	
724.	198264	RAINA TAMIYA	
725.	198473	PRAMESH AHIRWAR	
726.	198576	MADHUVAN SINGH SANDYA	
727.	198655	ROSHAN KUMAR JAIN	
728.	199015	SHASHANK SHEKHAR SINGH THAKUR	
729.	199031	ADARSH JAIN	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
730.	199187	INDRASEN TUMRALI	
731.	199222	PANKAJ SAHU	
732.	199279	SHASHI BHUSHAN DUBEY	
733.	199530	KAVITA YEDE	
734.	200051	HIMANSHU BHALAVI	
735.	200930	RAHUL GAJBHIYE	
736.	200979	SHARAD KUMAR MARAVI	
737.	201407	DEEPSHIKHA KHARE	
738.	201859	SHAILESH GUPTA	
739.	202119	ANURAG SINGH MARAVI	
740.	202196	NEELAM CHOUDHARY	
741.	202515	VARSHA CHADDHA	
742.	202529	FARHEEN KHAN	
743.	202587	NEERAJ NAMDEO	
744.	202595	NANDINI SARAF	
745.	202970	ABHINAV UPADHYAY	
746.	203053	RESHMA GUPTA	
747.	203162	PANKAJ PATEL	
748.	203708	ADARSH TIWARI	
749.	204132	ASHISH KUMAR PANDEY	
750.	204307	ANJANA TRIPATHI	
751.	204334	SONI LAL GOND	
752.	204401	NIDHI SINGH GOHAL	
753.	204483	MANJUSHA SHARMA	
754.	204487	SHIVANI BIRIYA	
755.	204827	PAWAN KUMAR BAGHEL	
756.	204900	DIVYA RAI	
757.	205261	ASHVANEK KUMAR	
758.	205314	SHALABH SONI	
759.	205784	DIVYA SHARMA	
760.	205888	FAREED AHMED	
761.	206036	KUMARI DEEPAK VISHWAKARMA	
762.	206050	CHETNA PRAJAPATI	
763.	206181	PUSHPENDRA PANDRE	
764.	206344	SULABH ANKIT GOUTIA	
765.	206451	SANDEEP SINGH	
766.	206914	SANJANA CHOUKSEY	
767.	208018	VINAY KUMAR KOL	
768.	208078	ROHIT VISHWAKARMA	
769.	208110	KULBHOOSHAN SHARMA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
770.	208452	KAPIL KUMAR SINGH MANGODIA	
771.	208483	NIKITA SINGH	
772.	208538	KAMAL SINGH NINGWAL	
773.	208970	BALVANT SINGH NALWAYA	
774.	209070	DILIP GARWAL	
775.	209088	KANKA BAMNIYA	
776.	209338	LORAINS BHURIYA	
777.	209339	PRAVIN PATIDAR	
778.	209495	ANIRUDDH SINGH	
779.	209575	JAYA VASAVA	
780.	210078	RADHA DAWAR	
781.	210489	SHIKHA SONI	
782.	211170	VIKRAM JAIN	
783.	211884	NISHIKANT JAIN	
784.	212525	DIPIKA JAIN	
785.	212763	RAJ KUMAR SAHU	
786.	212774	AVINASH VERMA	
787.	213262	SANGHMITRA BAUDDHA	
788.	213444	POOJA PRAJAPATI	
789.	213601	SAFALTA DUBEY	
790.	213751	BHARTENDU SIDDHARTH GAUTAM	
791.	214147	RAJYANAND GAUTAM	
792.	214426	MAYANK DWIVEDI	
793.	214523	UDAY SINGH JATAV	
794.	214819	ASHOK KUMAR SHARMA	
795.	215227	SANDEEP SINGH ARORA	
796.	215368	NISHANT KUMAR SHRIVASTAVA	
797.	215691	AJAY TIWARI	
798.	215886	PRAMESH JAIN	
799.	216821	PAVAN KUMAR AHIRWAL	
800.	217870	JYOTI BABLI BAIRAGI	
801.	218607	AJAY CHOUDHARY	
802.	218869	VISHA MADHWANI	
803.	219065	RUBINA MIZWANI	
804.	219198	ADITI YADAV	
805.	219230	SURESH PATEL	
806.	219385	MUKESH PANWAR	
807.	219443	MANAKMANI KUMAWAT	
808.	219447	RAVI SONER	
809.	219656	ANOOP KUMAR SHRIVASTAVA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
810.	220511	DILIP SINGH KUSHWAH	
811.	220559	VARSHA CHOUHAN	
812.	221129	KAILASH SASTYA	
813.	221147	NIRBHAY SINGH PATEL	
814.	221270	PAWAN KUMAR FULFAKIR	
815.	221430	INDRAJEET SINGH PARIHAR	
816.	221502	GANESH MUKATI	
817.	221538	MAN SINGH DODWA	
818.	221714	SHEETAL SOLANKI	
819.	221885	KAILASH KANAUI	
820.	222275	ROHIT SINGH ALAWA	
821.	222742	PRIYANSHI BHANWAR	
822.	223035	AMIT SINGH BHAMAROLIYA	
823.	223309	ABHISHEK CHOUDHARY	
824.	223331	KAMANI THAKUR	
825.	223976	PANKAJ KUMAR	
826.	224211	MOHAMMED YUNUSH QURESHI	
827.	224756	AMIT NAROLIYA	
828.	224819	KRISHNA KUMAR PADARIYA	
829.	225722	PANKAJ RASANIYA	
830.	225803	JITENDRA KUMAR PARIHAR	
831.	226423	UMESH KUMAR KURMI	
832.	226462	RAHUL SINGH	
833.	226479	SHYAM KISHOR DWIVEDI	
834.	226484	HARIHAR TIWARI	
835.	226874	NADEEMA SHIRI	
836.	226997	ASEEM MISHRA	
837.	227184	JITENDRA KUMAR SHARMA	
838.	227345	RAHUL LAV ALAWA	
839.	227528	KRISHNA PRATAP SINGH CHOUDHARY	
840.	227546	ANIL PATIDAR	
841.	227930	AJAY THAKUR	
842.	231684	MOHIT GANVEER	
843.	231724	LOKESH MOHESHWAR	
844.	232121	RAHUL WASNIK	
845.	232335	NAMITA DHAMGAYE	
846.	232367	HOMENDRA PATLE	
847.	232573	MONIKA PARDHI	
848.	232954	AKASH DAHARE	
849.	233479	DEEPAK RANA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
850.	233579	ABHINAV KESHARWANI	
851.	233953	JITENDRA KUMAR MESHRAM	
852.	234003	RAJESH KUMAR MISHRA	
853.	234043	ANIL KUMAR WASNIK	
854.	234167	URVASHI GOUTAM	
855.	234341	AAKASH MESHRAM	
856.	234472	POOJA UIKEY	
857.	234602	PAWAN KUMAR BAGDE	
858.	235223	ASHISH KUMAR KOTANGLE	
859.	235333	HEMANT KUMAR RAWTE	
860.	235473	RAJESH PARTE	
861.	235528	AMIT BHANDARI	
862.	235828	ASHISH KUMAR YADAV	
863.	235879	RAVINDRA KUMAR LILHARE	
864.	236112	ZAKIA ROOHI	
865.	236770	AKANKSHA BAGHELE	
866.	237182	VAISHALI BHAGAT	
867.	237198	SANJAY SINGH YADAV	
868.	237443	AMIR HASAN QURAIISHI	
869.	238961	PRAMOD KUMAR BARDE	
870.	239215	NEHA UBNARE	
871.	239932	SHANKER SATANKAR	
872.	240024	VINAYPRAKASH THAKUR	
873.	240302	CHAYENDRA KUMAR BUDEKAR	
874.	240649	ANSHUL DIXIT	
875.	240988	RAJNI VERMA	
876.	241516	MAHAVEER JATAV	
877.	242259	SMITA DESHMUKH	
878.	242315	AMIT KUMAR BHALAVI	
879.	242626	DINESH KUMAR CHAMPEWAR	
880.	242711	GEETA UIKEY	
881.	242743	SHYAM KUMAR DHURVE	
882.	243320	RAMESHWAR PRASAD AHIRWAR	
883.	244056	ANAND SINGH RAJAWAT	
884.	244141	DHARMENDRA SINGH	
885.	244250	VIKASH SINGH BHADAURIA	
886.	244525	NIRANJAN SINGH RAJPOOT	
887.	244867	VEERENDRA SINGH	
888.	244985	BASUDEV SINGH BHADOURIYA	
889.	245062	VIRENDRA VERMA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
890.	245332	SURBHIT AGRAWAL	
891.	245387	LALIT NARAYAN TRIPATHI	
892.	245406	AAYUSH GUPTA	
893.	245600	POOJA RANA	
894.	245626	SHASHANK SINGH GURJAR	
895.	245628	ROOPESH KUMAR RAJAK	
896.	245661	SANDEEP BANGRE	
897.	245684	ARVIND KUMAR PRAJAPATI	
898.	245848	AMIT KUMAR ARYA	
899.	246202	PRATIKSHA JHARKHARIYA	
900.	246234	ANAMIKA KOLI	
901.	246511	AKANKSHA PRAJAPATI	
902.	246643	SARITA CHOUDHARI	
903.	246867	MADHU CHOUDHARY	
904.	247050	ISHWAR SINGH VERMA	
905.	247153	PRIYANKA JAIN	
906.	247205	JYOTI KUMBHARE	
907.	247265	KALYANI VERKADE	
908.	247323	ANKITA TRIPATHI	
909.	247390	GEETA BISEN	
910.	247461	SANDEEP SINGH THAKUR	
911.	247487	HIMANI MANWARE	
912.	247588	SANDHYA RAWAT	
913.	247757	MANISHA YADAV	
914.	247782	SUMIT KUMAR GURJAR	
915.	247912	SANJU CHOUHAN	
916.	248166	SHAZIA NAWAZ KHAN	
917.	249064	ANITA SHARMA	
918.	249367	NARENDRA PANDWA	
919.	249372	PUSHKAR NATH PATEL	
920.	249548	SAMEER CHOKHANDRE	
921.	249594	RAKESH NAGAR	
922.	250251	BHARAT KUMAR NEMA	
923.	250564	ANKIT YADAV	
924.	251236	ARCHANA AHIR	
925.	251358	PRIYA SINDHI	
926.	251471	RAMKUMAR YADAV	
927.	251859	KULDEEP SHARMA	
928.	252044	RAJU MEDA	
929.	252155	VAIBHAV DESHMUKH	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
930.	252178	RUHI HAQUE	
931.	252316	KISHOR VAMANKAR	
932.	252485	SHALINI UIKEY	
933.	253314	ANURAG SANTORE	
934.	253412	TARUN KUMAR RAHANGDALE	
935.	253961	DURGESH ARMO	
936.	254282	SULAB SINGH PUSHAM	
937.	254327	SUNDER LAL BISEN	
938.	254391	PUSPENDRA KUMAR VERMA	
939.	254432	ANKITA YADUVANSHI	
940.	254732	RICHA JAIN	
941.	254754	SANGEETA MERAVI	
942.	254895	AYUSH KUMAR ALAWA	
943.	255210	SANUJ MARAVI	
944.	255263	NIKHILESH KATARE	
945.	255277	KEERTI ASATI	
946.	255544	MANISH KUMAR BORKAR	
947.	256164	ROHIT YADAV	
948.	256321	ANKIT MEHAR	
949.	257152	AKHIL RATHORE	
950.	257601	NEELESH PATEL	
951.	257647	KIRAN DHAKAD	
952.	258321	NITESH PAWAR	
953.	258665	SOMYA AGARWAL	
954.	258943	SHWETA SILAWAT	
955.	259172	ANKITA KHATARKAR	
956.	259233	PUSHPENDRA DWIVEDI	
957.	259439	ASHUTOSH PANDEY	
958.	260255	KAVITA SHYAM	
959.	260273	SUREKHA YADAV	
960.	260734	NARENDRA SINGH	
961.	260752	SANGEETA UIKEY	
962.	260773	BRIJLAL MARKAM	
963.	260842	AMIT MESHAM	
964.	261061	SURENDRA CHARAR	
965.	261141	RAJKUMAR CHANDRAVANSHI	
966.	261240	VAISHALY JAIN	
967.	261404	ABHINAV KUMAR BARANGE	
968.	262278	ANSHUL KHARE	
969.	262282	NITESH PATEL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
970.	262388	VEENA ADWANI	
971.	262394	ASHISH AGARWAL	
972.	262457	SHWETA SHRIVASTAVA	
973.	263972	ANISH KUMAR PATEL	
974.	264379	ANIL MORE	
975.	265122	RESHAM DWIVEDI	
976.	265543	SACHIN GUPTA	
977.	266358	KULDEEP MALIK	
978.	266570	ALOK JAIN	
979.	266722	VIRENDRA SINGH GURJAR	
980.	266770	SANGEETA CHOUHAN	
981.	266841	JAISHREE RATHORE	
982.	266851	AWANTIKA TIWARI	
983.	266960	RAVINDRA GAMAD	
984.	266979	GARIMA WAIKER	
985.	267074	RAJENDRA SINGH KANESH	
986.	267130	NEHA BHUMARKAR	
987.	267142	SHASHANK ARMO	
988.	267608	REENA YADAV	
989.	267896	TINESHWARI DHRUW	
990.	268197	SANJEEV KUMAR PANDEY	
991.	268211	MAYANK JAIN	
992.	268244	SANJEEV KUMAR DHURVE	
993.	268517	NUTAN UIKEY	
994.	268726	KAMLESH AHIRWAR	
995.	268825	MANISHA WASKALE	
996.	269934	RITU MUDGAL	
997.	270707	JEETENDRA KUMAR PATEL	
998.	271225	VIKAS KUMAR GAUTAM	
999.	271531	ANTIMA SAMADHIYA	
1000.	271940	MANOJ KUMAR BELVANSHI	
1001.	272137	SHIVAM DHOTE	
1002.	272470	SONALI DUBEY	
1003.	272538	BHEEMSEN PATEL	
1004.	272551	SHIVENDRA CHANDRAWAR	
1005.	272571	RICHA PATHAK	
1006.	272638	DEEPAK PATEL	
1007.	272683	RISHU JAIN	
1008.	272981	PRASHANT JAISWAL	
1009.	272993	ANUBHA JAIN	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1010.	273777	SATISH MALVIYA	
1011.	274036	DHANRAJ HARIYALE	
1012.	274116	HARSH MEGHWAL	
1013.	274148	PRAMOD KUMAR SHARMA	
1014.	274369	SANJEEV SARATHE	
1015.	274731	NIRMALA MALVIYA	
1016.	274797	CHANDRABHAN BHALAVI	
1017.	275234	MUKESH KUMAR SRIVASTAVA	
1018.	275312	AJAY WAGHAMARE	
1019.	275510	MADHAV KHER	
1020.	276029	SOUMI DAS	
1021.	276370	GAYATRI KOSTA	
1022.	276886	SATYAM THAKUR	
1023.	277040	AYUSHI JAIN	
1024.	278074	DILEEP KUMAR SHRIVAS	
1025.	278394	SHYAM LAL SINGORE	
1026.	278864	AJAY SINGH GAUR	
1027.	279497	NITA JAIN	
1028.	279517	AJAY SINGH CHUNDAWAT	
1029.	279690	SUNEEL KUMAR UIKEY	
1030.	280006	REENA SOLANKI	
1031.	280520	SANTOSH KUMAR	
1032.	280909	YOGITA BHATNAGAR	
1033.	280989	SHWETA SATHE	
1034.	281071	MANISH SHRIVASTAVA	
1035.	281420	LALITA GARG	
1036.	281499	SHILPA SINGH	
1037.	281548	ARVIND SHARMA	
1038.	281702	AFEESAR SINGH	
1039.	282751	RAJENDRA KUMAR SHUKLA	
1040.	283390	DHARAMVEER UMRAIYA	
1041.	284027	MANEESH YADAV	
1042.	284376	MOHIT SEENAM	
1043.	284418	DAYARAM VASUNIA	
1044.	285015	NARENDRA SINGH DAMAR	
1045.	286070	DIVYA CHOPRA	
1046.	286322	JYOTI KHARADI	
1047.	286486	SURENDRA BHABHAR	
1048.	286829	LAXMINARAYAN CHOUHAN	
1049.	287397	HITESH KHANDELWAL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1050.	287501	NITIN RATHORE	
1051.	287555	JANKILAL CHARPOTA	
1052.	287625	ANIL KUMAR DHAKAD	
1053.	287851	ARPAN YADUVANSHI	
1054.	287932	DINESH KUMAR DANGI	
1055.	288014	POOJA SHARMA	
1056.	288146	NEHA CHOUHAN	
1057.	288436	PRATEEK GUPTA	
1058.	288783	DEVNARAYAN YADAV	
1059.	288886	VIJAYA BHILALA	
1060.	289076	GHANSHYAM BAIRAGI	
1061.	289311	MANISH RAJ	
1062.	289490	VISHAL SONI	
1063.	289934	AMBUJ TRIPATHI	
1064.	290132	MANORAMA TIWARI	
1065.	290185	JHALKHANDE PRASAD SHUKLA	
1066.	290336	NEELAM TIWARI	
1067.	290343	PRABHAT CHATURVEDI	
1068.	290831	ANURADHA SINGH	
1069.	291153	ABHAYRAJ SINGH	
1070.	291203	SHIVALI PANDEY	
1071.	291412	NEELESHPANDEY	
1072.	291548	SUSHAMA MISHRA	
1073.	291679	DHARMENDRA KUMAR AHIRWAR	
1074.	291894	AMRITA TRIPATHI	
1075.	291896	UTTAM SINGH	
1076.	292078	PRASUN KUMAR MISHRA	
1077.	292212	ACHALESHWAR UPADHYAY	
1078.	292323	VIVEK KUMAR SHARMA	
1079.	292425	RAVI MISHRA	
1080.	292564	NEHA SINGH	
1081.	293118	ANJU SINGH PORTE	
1082.	294273	RAVI VERMA	
1083.	295292	KETAN VISHWAKARMA	
1084.	295364	AJEET KUMAR TIWARI	
1085.	295672	PRAKASH DWIVEDI	
1086.	296399	AMRITA SUMAN	
1087.	296538	PUSHRAJ SINGH	
1088.	296718	AKHILESH KUMAR DEEPANKAR	
1089.	296904	VINDHYA MISHRA	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1090.	297183	VIKRAM SINGH	
1091.	297185	ASHUTOSH S	
1092.	297328	JITESH KUMAR RAWAT	
1093.	298078	VIKAS KUMAR ANAND	
1094.	298548	SUMAN DWIVEDI	
1095.	298760	DHARAMRAJ BAGHEL	
1096.	298826	ADITYA SINGH SIKARWAR	
1097.	298887	REETA DAHERIYA	
1098.	299162	MONIKA CHAUHAN	
1099.	299185	ROHIT KUSHWAH	
1100.	299391	JEEVAN SINGH RAJAK	
1101.	299748	SHYAMU SHRIVASTAVA	
1102.	300146	PINKEY RAGHUWANSHI	
1103.	300189	BHOOPENDRA VISHWAKARMA	
1104.	300454	DR ADITYA K. TIWARI	
1105.	300838	SAURABH SINGH KUSHWAH	
1106.	300906	MUKESH KUMAR GOUR	
1107.	301191	VIVEK MOHAN CHAUDHARY	
1108.	301197	ABHISHEK SINGH BAGHEL	
1109.	301361	DEEPTI MANJHI	
1110.	301625	SANTOSH KARCHAM	
1111.	301695	TUSHAR SINGH	
1112.	301864	SURENDRA SINGH UIKE	
1113.	303982	SHRIKANT TRIPATHI	
1114.	304988	KAMAL SINGH GURJAR	
1115.	305143	ASHISH SHARMA	
1116.	305428	SONU GUPTA	
1117.	305810	SIDDHARTH SHARMA	
1118.	305968	ARVIND SINGH DIWAKAR	
1119.	305974	TRILOCHAN GAUR	
1120.	306428	MAYANK KHEMARIYA	
1121.	306734	SHIVRAJ MEENA	
1122.	306739	UDAYBHAN SINGH VERMA	
1123.	306796	UPENDRA KUMAR JHA	
1124.	306802	PRASHANT TRIVEDI	
1125.	306818	SONALI VASHISTHA	
1126.	307136	SANDEEP SINGH YADAV	
1127.	307249	SUMIT AGARWAL	
1128.	307278	SUNIL VERMA	
1129.	307459	SONALI TRIVEDI	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1130.	307480	ADARSH JAIN	
1131.	307481	SHIVAM SINGHAL	
1132.	307494	NISHA BHARDWAJ	
1133.	307606	SHWETA GUPTA	
1134.	307721	SHUBHAM SHARMA	
1135.	307942	SEEMA THAKUR	
1136.	308605	ASHUTOSH SINGH BHADAURIYA	
1137.	309124	DEVENDRA KUMAR DWIVEDI	
1138.	309594	HALDHAR PRASAD MISHRA	
1139.	310376	UMESH PRAJAPATI	
1140.	311796	SHAILESH KUMAR PANDEY	
1141.	314897	YOGENDRA KUMAR DUBEY	
1142.	315223	AMRITA GARG	
1143.	315254	MANISH KUMAR TRIPATHI	
1144.	315472	KAMAL PRATAP	
1145.	316388	ARVIND KUMAR LODHI	
1146.	316509	JEETU SINGH BAGHEL	
1147.	317120	VINAY PRAJAPATI	
1148.	317503	SANJAY KUMAR SUMAN	
1149.	317645	ABHISHEK SINGH THAKUR	
1150.	317849	SHRENIK BADKUL	
1151.	318173	SHEETAL PATERIYA	
1152.	318206	SHARDA KAROLIYA	
1153.	318562	DEEPKA PARMAR	
1154.	318727	SOURABH PATERAYA	
1155.	319044	ABHISHEK GAUTAM	
1156.	319046	SONU KURMI	
1157.	319117	RAVISHANKAR SINGH	
1158.	319275	RAJEEV GOYAL	
1159.	319451	RITU RAY	
1160.	319472	SANJEEV KUMAR GOSWAMI	
1161.	319491	AKANKSHA JAIN	
1162.	319518	AKASH JAIN	
1163.	319521	HARENDRA SINGH	
1164.	319690	HIMANSHU DEOSKAR	
1165.	319866	ABHISHEK TIWARI	
1166.	320440	UNNATI JAIN	
1167.	320539	PRIYANK SHRIVASTAVA	
1168.	320719	YASH BIJORIYA	
1169.	321045	NIYATI SAHU	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1170.	321282	NANDINI SHARMA	
1171.	321978	AASHISH KUMAR JAIN	
1172.	322191	OM PRAKASH MISHRA	
1173.	322312	NEETU SINGH GOND	
1174.	322611	NILESHWARI DAWAR	
1175.	322675	ROSHANI SINGH THAKUR	
1176.	322817	SHIVANI RAIKWAR	
1177.	322819	NILESH KUMAR SHARMA	
1178.	323455	MANISH SHARMA	
1179.	324265	ADITI JAIN	
1180.	324833	MANOJ KUMAR THAKUR	
1181.	324880	NEELAM CHOUHAN	
1182.	325014	ROOPENDRA KUMAR DHURVE	
1183.	325237	SACHIN KUMAR DHURVE	
1184.	325487	HEM SINGH SHYAM	
1185.	325621	RAJESH UIKEY	
1186.	326293	RADHESHYAM VERMA	
1187.	327007	ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA	
1188.	327055	SUNAYNA BRAMHE	
1189.	327958	RAMAKANT MISHRA	
1190.	328307	PRIYANKA PANDEY	
1191.	328425	SANJEEV KUMAR TIWARI	
1192.	328658	SATYAM MISHRA	
1193.	328887	BODH NARAYAN SINGH	
1194.	328917	NEETA SINGH	
1195.	329072	PRIYANKA KARCHAM	
1196.	329735	MITALI SARIYAM	
1197.	330057	JITENDRA KUMAR BARODIA	
1198.	330165	SONALI NAREDA	
1199.	330605	VEERENDRA KUMAR MALVIYA	
1200.	330668	ARJUN KUMAR	
1201.	330885	RADHA KISHAN ATARIYA	
1202.	331079	KRISHNAKANT SINGH CHOUHAN	
1203.	331164	SAPNA BAGANA	
1204.	331234	MUKESH SAWLE	
1205.	331552	SHRAVAN KUMAR	
1206.	331580	RAJNI YADAV	
1207.	332364	ATUL DHANGAR	
1208.	332983	RUHI BAVEJA	
1209.	333066	OMNARAYAN SINGH BADKUL	

S.No.	Roll No.	Name	Remark
1210.	333115	SUCHITRA RAJAVAT	
1211.	333172	SUNEET SHUKLA	
1212.	333222	ABHISHEK SINGH	
1213.	333824	PREETI SAHU	
1214.	334102	SURABHI MEENA	
1215.	334218	DEVESH SARATHE	
1216.	334358	SHUCHITA SINGH	
1217.	334520	SARITA MEENA	
1218.	334528	REETIKA YADAV	
1219.	334587	NAVMIDAS CHOUKIKAR	
1220.	335870	PALLAVI GOUR	
1221.	335888	AKHILESH KUMAR YADUWANSHI	
1222.	335926	SHWETA RAWAT	
1223.	336095	DEEPI TIWARI	
1224.	336147	ANAND KUMAR LOWANSHI	
1225.	336315	VINOD KUMAR SHRIVASTAVA	
1226.	336451	PUSPENDRA KUMAR SHUKLA	
1227.	336604	PARAG JAIN	
1228.	336691	SUBHASH CHAND MOURYA	
1229.	336862	ANURAG JAIN	
1230.	337350	KRISHNA BIHARI MISHRA	
1231.	338389	SHASHI KAPOOR GADPALE	
1232.	339489	PRAMENDRA SHEKHAR PANDEY	
1233.	339818	GOVARDHAN PRASAD	
1234.	340149	SUMAN BAGHEL	
1235.	340887	JYOTI GUPTA	
1236.	3340973	PANKAJ SHARMA	
1237.	341101	BRIJENDRA SINGH RATHOUR	
1238.	341371	LALITESH SINGH NAYAK	
1239.	342041	AJAY CHOUHAN	
1240.	342389	DHUL SINGH KHARAT	
1241.	343397	SANDEEP KUMAR SHYAMLE	
1242.	343486	SOHAN SINGH CHOPRA	
1243.	343578	SHAILENDRA BIHARI SHARMA	
1244.	345637	SAPNA KUMARI SHARMA	

- महत्वपूर्ण टीप:—** 1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015, के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जाएगी.
2. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा. आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
6. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in), पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा.

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक.

(715-A)

### विविध

#### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 26 अगस्त, 2016

संशोधित आदेश

क्र./1230/व.लि./2016.—इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 19-20/व.लि./15-16, दिनांक 07 जनवरी, 2016 के अनुसार इन्दौर जिले हेतु उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 31 अगस्त, 2016 (बुधवार) को अहिल्या उत्सव होने से कार्यालयीन समय प्रातः 07.00 से दोपहर 11.00 बजे के स्थान पर कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से दोपहर 01.30 बजे तक निर्धारित किया जाता है. यह आदेश कोषालय उप-कोषालय एवं बैंक पर लागू नहीं होगा.

पी. नरहरि,  
कलेक्टर.

(725)

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

संशोधित

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक बजरंगलाल गगगड़, पता-67, रामचन्द्र नगर, एक्सटेन्शन रोड, इन्दौर के द्वारा बिजासन क्षेत्र माहेश्वरी समाज सेवा ट्रस्ट, कार्यालय पता-67, रामचन्द्र नगर एक्सटेन्शन रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	बिजासन क्षेत्र माहेश्वरी समाज सेवा ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-67, रामचन्द्र नगर एक्सटेन्शन रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 22 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(716)

## ( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री संजय पिता रमेशचंद्र अग्रवाल, निवासी-19, आर. सी. सी. रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश के द्वारा शिव मंदिर पब्लिक ट्रस्ट इन्दौर, कार्यालय पता-32/1, सदर बाजार, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	शिव मंदिर पब्लिक ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-32/1, सदर बाजार, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	मकान नं. 31/नया 32/1, सदर बाजार इन्दौर में स्थित है, जिसमें शिव मंदिर है, जो लगभग 110 फीट है और कुल चौड़ाई उत्तर-दक्षिण 43 फीट है.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,  
रजिस्ट्रार.

(716-A)

## अन्य सूचनाएं

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 29 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उपनियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला	1078/26-09-2001	519/24-04-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोडिया	393/17-04-1978	521/24-04-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा कठोडिया	1498/12-03-2014	135/22-01-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुपाखेडा	1497/12-03-2014	132/22-01-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधोन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अगस्त, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

आर. सी. मालवीय,  
परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारिता.

(717)

**कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, उज्जैन, संभाग उज्जैन**

उज्जैन, दिनांक 09 अगस्त, 2016

**प्रारूप-एक-एक**

[नियम-50 का उपनियम (2) देखिए]

(सनदी लेखापाल फर्म से संपरीक्षा कराये जाने पर प्रयोक्त)

विषय:- सहकारी संस्थाओं की वैधानिक लेखा परीक्षा सहकारी वर्ष 2015-16 के लिये संपरीक्षा शुल्क का उद्गृहण.

क्र./अंके./928/2016.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ नियम-1962 के नियम-50-क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, व्ही. पी. मारण, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, उज्जैन, संभाग उज्जैन, स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्या., मंदसौर, पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 08 अप्रैल, 1999 से सहकारी वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-पन्द्रह-1/317, भोपाल, दिनांक 05 अगस्त, 2015 के अनुसार राशि रुपये 2,10,100/- (शब्दों में दो लाख, दस हजार, एक सौ रुपये मात्र) संपरीक्षा शुल्क निर्धारित करता हूँ:-

क्र.	वर्ष	संपरीक्षा शुल्क उद्गृहण का आधार (टिप्पण-1, 5 के अनुसार)	आधार भूत राशि लाखों में (टिप्पण-1, अथवा टिप्पण 5 के अनुसार)	संपरीक्षा शुल्क की दर 100 करोड़ तक न्यूनतम/अधिकतम तथा 100 करोड़ से आगे गणना अनुसार सनदी लेखापाल को देय राशि.	विभाग को देय राशि (कॉलम क्र. 5 का 10 प्रतिशत)	संस्था पर कुल प्रभारित शुल्क (5+6)
2015-16	बकाया ऋण अग्रिम	12306.39 लाख	100 करोड़ तक अधिकतम राशि 1,90,000/- एवं राशि 2306 लाख पर 5/- प्रति लाख के मान से राशि रुपये 11530/- एवं बैंक की 04 शाखाओं की राशि 1000/- कुल राशि 2,02,530/- होती है. किन्तु अधिकतम राशि 2,00,000/- अधिरोपित की जाती है.	20,000/-	2,20,000/-	

इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 02 माह की अवधि में लेखा शीर्ष-0425 सहकारिता 101 लेखा परीक्षा फीस के अंतर्गत निकटतम शासकीय कोषालय में निर्धारित राशि जमा करे तथा कोषालयीन चालान की मूल प्रति जिला कार्यालय को लेखा हेतु भेजकर इस कार्यालय को सूचित करें. कृपया किसी अन्य लेखा शीर्ष में जमा न करने की सावधानी रखें.

(693)

व्ही. पी. मारण,  
संयुक्त आयुक्त, सहकारिता..

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

माँ पार्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा बुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 1896, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 आदेश क्रमांक/परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है.

अतः सहकारिता के सिद्धांतों संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./742, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम

की धारा-69 (4) के अन्तर्गत माँ पार्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा बुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 1896, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया .

(718)

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2025.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितावलिया खेड़ा, तह. तराना	2058/25-02-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था. परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने, पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चितावलिया खेड़ा, तह. तराना.	2058/25-02-2015	श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(718-A)

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2026.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरी, तह. तराना	2124/04-08-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था. परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने, पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरी, तह. तराना.	2124/04-08-2015	श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(718-B)

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2027.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनंतखेड़ी, तह. तराना, जिला उज्जैन	2122/04-08-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था. परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने, पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनंतखेड़ी, तह. तराना, जिला उज्जैन.	2122/04-08-2015	श्री संतोष साकल्या, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(718-C)

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2028.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा, उज्जैन	1999/01-01-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था. परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने, पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा, उज्जैन.	1999/01-01-2015	श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(718-D)

उज्जैन, दिनांक 24 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/2029.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा, उज्जैन	2035/22-01-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 अगस्त, 2016 तक चाहा गया था. परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने, पंजीकृत पते पर कार्य नहीं करने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा, उज्जैन.	2035/22-01-2015	श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(718-E)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2816, दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा श्री मंगलनाथ कृषि विपणन भण्डारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1449, दिनांक 31 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(718-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2816, दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा वसुदेव कूटुम्बकम उद्यानिकी पौध पुष्प सब्जी व अन्य कृषि उत्पादन विपणन भण्डारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1655, दिनांक 22 जनवरी, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(718-G)

उज्जैन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2046.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडा, पंजीयन क्रमांक 792, दिनांक 28 अप्रैल, 1988 आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्धारित समयवधि में निर्वाचन नहीं कराया जाना है.

संस्था के परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु दिनांक 11 फरवरी, 2016 को प्रथम चरण प्रारम्भ होने के बावजूद उक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया गया है. जिसके कारण परिसमापक द्वारा संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि.582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(718-H)

## कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	संकल्प शासकीय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1864/08-09-2014	743/08-03-2016	743/08-03-2016
2.	लोअर सिंध गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	41/11-02-1964	2467/26-10-2013	1210/01-06-2016
3.	अर्पण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1422/27-04-19	2467/26-10-2013	1210/01-06-2016

अतः मैं, एन. के. राय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(719)

उज्जैन, दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	नूतन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर.	98/10-07-2008	580/25-02-2016	580/25-02-2016
2.	श्री नित्यानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरिया जागीर.	96/16-06-2008	580/25-02-2016	580/25-02-2016
3.	दीपक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुंडला सुलेमान.	64/18-07-2003	580/25-02-2016	580/25-02-2016
4.	बिल्केश्वर महादेव संतरा उत्पादक विप. प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., तराना.	1711/26-02-2008	1524/09-07-2013	1210/01-06-2016

1	2	3	4	5
5.	श्री महाकाल कृषि उपज विपणन सहकारी संस्था समिति मर्यादित, उज्जैन.	1524/08-04-2000	1524/09-07-2013	1210/01-06-2016
6.	उज्जैनिया कृषि उपज भण्डारण प्रक्रिया संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1562/10-05-2001	1524/09-07-2013	1210/01-06-2016

अतः मैं, एन. के. राय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमाकराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. के. राय,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(719-A)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/204, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुकरजोगी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./429, दिनांक 31 मार्च, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुकरजोगी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुकरजोगी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./429, दिनांक 31 मार्च, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(720)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/209, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरारिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./415, दिनांक 29 जनवरी, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरारिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरारिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./415, दिनांक 29 जनवरी, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-A)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/210, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरौ, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./286, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरौ, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरौ, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./286, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-B)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/208, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./404, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./404, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-C)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/206, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करैयाहाट, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./268, दिनांक 23 नवम्बर, 1985 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करैयाहाट, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करैयाहाट, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./268, दिनांक 23 नवम्बर, 1985 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-D)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/211, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बगरोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./406, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बगरोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बगरोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./406, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-E)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/205, विदिशा, दिनांक 19 फरवरी, 2007 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पुरवाई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./445, दिनांक 27 मई, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. राज, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पुरवाई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पुरवाई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./445, दिनांक 27 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(720-F)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/277, विदिशा, दिनांक 28 फरवरी, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अहमदपुर, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./303, दिनांक 02 मई, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अहमदपुर, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अहमदपुर, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./303, दिनांक 02 मई, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(720-G)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतपाड़ा सराय, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./392, दिनांक 01 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतपाड़ा सराय, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतपाड़ा सराय, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./392, दिनांक 01 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(720-H)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/769, विदिशा, दिनांक 07 अगस्त, 2016 से श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,

चकपाटनी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./913, दिनांक 27 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चकपाटनी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चकपाटनी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./913, दिनांक 27 मार्च, 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-I)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/98/608, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./387, दिनांक 01 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक-पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./387, दिनांक 01 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(720-J)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/98/596, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हतोड़ा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./383, दिनांक 27 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक-पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हतोड़ा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हतोड़ा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./383, दिनांक 27 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(720-K)

विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/98/593, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंज, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./379, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक-पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंज, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंज, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./379, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कापॉरिट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,  
उप-पंजीयक.

(720-L)

**कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत, कुरवाई, जिला विदिशा**

कुरवाई, दिनांक 26 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरवाई	275/03-05-1986	585/30-04-2016
2.	रेत मुरम उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., पाडोछा	565/14-10-1998	593/30-04-2016
3.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बरेठा	266/28-03-1985	594/30-04-2016
4.	हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा	978/07-01-2015	741/09-06-2016
5.	खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., पठारी	351/16-11-1990	592/30-04-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय जनपद पंचायत कुरवाई, जिला विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप में सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी करता हूँ.

ए. के. जैन,

(721)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 01 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

माँ जागेश्वरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, आचवल, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 06 सितम्बर, 2008 को कार्यालयीन आदेश/क्रमांक/परिसमापन/2016/1609, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आम सभा दिनांक 24 जुलाई, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसमिति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1609, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए माँ जागेश्वरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, आचवल, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 06 सितम्बर, 2008 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये गठित करता हूँ :-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद नाम	क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद नाम
1.	श्रीमती हेमलता सोनी/श्री गोकुल सोनी	अध्यक्ष	7.	श्री बेनीप्रसाद/श्री नन्हाई	सदस्य
2.	श्रीमती ममता सोनी/श्री गोपाल सोनी	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमति लक्ष्मी बाई/श्री हरीशंकर	सदस्य
3.	श्री गोपाल/श्री सीताराम	सदस्य	9.	श्रीमति राम सखी/श्री रामबाबू चौरसिया	सदस्य
4.	श्रीमती विजयरानी/श्री जगदीश	सदस्य	10.	श्रीमति मंजू लता/श्री जमुना नामदेव	सदस्य
5.	श्री राधेश्याम/श्री बाबूलाल	सदस्य	11.	श्रीमति फूल रानी/श्री नाथूराम रैकवार	सदस्य
6.	श्रीमती उमा/श्री अशोकनामदेव	सदस्य			

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 01 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,

उप-रजिस्ट्रार.

(722-A)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016-आश्विन 1, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 जून, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

( अ ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, कैलारस (मुरैना), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), छतरपुर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना (सागर), रघुराजनगर, नागौद (सतना), जैतहरी, कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, मझोली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), कालापीपल (शाजापुर), बुरहानपुर (बुरहानपुर), लटेरी, नटेरन, विदिशा (विदिशा), बाड़ी (रायसेन), चिचौली, बैतूल (बैतूल), सीहोरा, जबलपुर, मझोली, कुंडम (जबलपुर), बिछिया, नैनपुर, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, सोंसर (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील कुसमी (सीधी), मंडला (मंडला), पांडुर्ना, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.— जिला ग्वालियर, दमोह, रीवा, सिंगरौली, मंदसौर, झाबुआ, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 08 जून, 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	6.0				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	5.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	3.0				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	2.3				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला अशोकनगर:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ...		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाहीरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	3.0				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	5.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	3.0		उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	2.0		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,		
4. पवई	6.0		मसूर, मटर, आलू, प्याज.		
5. शाहनगर	4.0		(2) ..		
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	4.2		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		(2) ..		
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग, उड़द, गन्ना, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	3.4				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	2.1				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्लियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	0.6				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	15.1				
4. पुष्परजगढ़	4.1				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	9.6		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	8.6				
4. कुसमी	20.0				
5. चुरहट	6.2				
6. रामपुरनैकिन	1.1				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>*जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ौदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..		
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	2.0				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अधिक ज्वार, धान, कपास, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. रोहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	4.6.				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	9.0				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	3.0				
6. विदिशा	6.0				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>*जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	11.0				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	10.3				
5. बैतूल	15.8				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गोहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	2.2		4. (1) उड़द, मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	0.2				
4. मझौली	1.2				
5. कुण्डम	5.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूंग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	40.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	9.0		(2) ..		
3. नैनपुर	6.5				
4. मण्डला	26.4				
5. घुघरी	6.7				
6. नारायणगंज	1.6				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	4.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	4.6				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	6.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	2.0				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	8.0				
6. पांढुर्णा	27.0				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	21.3				
10. हरई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला अशोकनगर, नीमच, खण्डवा, राजगढ़, सीहोर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(714)